



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1

PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 295]

नई दिल्ली, बुधस्तिवार, दिसम्बर 18, 2003/अग्रहायण 27, 1925

No. 295]

NEW DELHI, THURSDAY, DECEMBER 18, 2003/AGRAHAYANA 27, 1925

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(पाटनरोधी एवं सम्बद्ध शुल्क महानिदेशालय)

शुद्धि-पत्र

नई दिल्ली, 18 दिसम्बर, 2003

विषय : चीन जनवादी गणराज्य से हार्ड फैराइट रिंग मैग्नेट्स (एचएफआरएम) के आयातों के संबंध में पाटनरोधी शुल्क की समीक्षा सैसटेट के आदेशों के बारे में।

सं. 65/1/2000-डीजीएडी.—सीमाशुल्क, उत्पाद शुल्क एवं सेवा कर अपीलीय न्यायाधिकरण (सैसटेट) ने अपने दिनांक 12 सितम्बर, 2003 के अंतिम आदेश सं. 12/2003-एडी में यह आदेश दिया है कि दिनांक 12 दिसम्बर, 2001 की सीमा शुल्क अधिसूचना सं. 123/2001-कस्टम में निम्नलिखित संशोधन किया जाए :—

अधिसूचना की सारणी के कालम (3) के अंतर्गत वर्तमान प्रविष्टि अर्थात् "अमैगनीकृत रूप समेत सभी ग्रेडों एवं आकार की हार्ड फैराइट रिंग मैग्नेट (एच एफ आर एम)" के स्थान पर "अमैगनीकृत रूप समेत 2.8 एमजीओई एवं इससे अधिक की ऊर्जा वाले उत्पाद (बी एच मैक्स) का हार्ड फैराइट रिंग मैग्नेट (एच.एफ.आर.एम.)" प्रविष्टि प्रतिस्थापित की जाएगी।

1995 में यथा संशोधित सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 तथा सीमाशुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं की पहचान, उन पर पाटनरोधी शुल्क का आकलन तथा संग्रहण और क्षति निर्धारण) नियमावली, 1995 और सैसटेट के उपर्युक्त आदेश को ध्यान में रखते हुए निर्दिष्ट प्राधिकारी एतद्वारा 23 अक्टूबर, 2001 की अधिसूचना सं. 65/1/2000-डीजीएडी की सारणी के "उत्पाद शीर्ष" कालम के अंतर्गत कालम 3 में निम्नलिखित संशोधन करते हैं :—

"पैरा ख (क) (3) में यथाउल्लिखित एच एफ आर एम के सभी ग्रेड और साइज" को इस प्रकार पढ़ा जाएगा :—

"अमैगनीकृत रूप समेत 2.8 एम जी ओ ई और इससे अधिक ऊर्जा वाले उत्पाद (बी एच मैक्स) का हार्ड फैराइट रिंग मैग्नेट (एच एफ आर एम)"

अभिजीत सेनगुप्त, निर्दिष्ट प्राधिकारी

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

(Directorate General of Anti-Dumping and Allied Duties)

CORRIGENDUM

New Delhi, the 18th December, 2003

Subject : Review of Anti-dumping duties concerning imports of Hard Ferrite Ring Magnets (HFRM) from PR China—CESTAT Orders reg.

No. 65/1/2000-DGAD.—The Customs, Excise and Service Tax Appellate Tribunal (CESTAT) in Final Order No. 12/2003-AD dated 12th September, 2003 has ordered the following modification in Customs Notification No. 123/2001-Cus. dated 12th December, 2001 :—

The present entry under Column (3) of the Table to Notification, viz. **“Hard Ferrite Ring Magnet (HFRM) of all grades and sizes including in unmagnetised form”** shall be replaced by the entry **“Hard Ferrite Ring Magnet (HFRM) of Energy Product (BH max) 2.8 MGOe and above including in unmagnetised form”**.

Having regard to the Customs Tariff Act, 1975 as amended in 1995 and the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti-Dumping Duty on Dumped Articles and for the determination of Injury) Rules, 1995 and the orders of CESTAT mentioned above, the Designated Authority hereby makes the following modification in Column 3 under the Column Head “Product” of the Table to the Notification No. 65/1/2000-DGAD dated 23rd October, 2001.

‘HFRM of all grades and sizes as indicated in Para B(A)(3)’ shall be read as :—

“Hard Ferrite Ring Magnet (HFRM) of Energy Product (BH max) 2.8 MGOe and above including the unmagnetised form”

ABHIJIT SENGUPTA, Designated Authority